



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रकाशक व प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 408]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 1979/आश्विन 16, 1901

No. 408]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 1979/ASVINA 16, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1979

का. आ. 573(अ).—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 में—

(क) नियम 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जायें, अर्थात् :—

“3. निगम का गठन : निगम में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष-एवं-महा प्रबंधक।

(ख) निगम के महाप्रबंधक, यदि अध्यक्ष और महाप्रबंधक का पद अलग-अलग हो।

(ग) पांच अधिकारी, और

(घ) पांच व्यक्ति जिनमें से—

(1) एक नई दिल्ली नगर पालिका का प्रतिनिधि होगा, जो पालिका द्वारा अपने ही सदस्यों में से नामित किया गया हो।

(2) एक दिल्ली महानगर परिषद् का प्रतिनिधि होगा जो परिषद् के सदस्यों द्वारा परिषद् में से चुना गया हो।

(3) एक दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधि होगा जो निगम के सदस्यों द्वारा आपस में से चुना गया हो।

(4) दो व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे।

4. कार्यकाल :—महाप्रबन्धक अथवा अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष-एवं-महाप्रबन्धक जैसी भी स्थिति हो, को छोड़ कर किसी भी सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों तक होगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

फिर यह भी कि नियम 3 के खंड (घ) के उपखंड (1) अथवा उपखंड (2) अथवा उपखंड (3) के अधीन नियुक्त यदि कोई भी व्यक्ति नहीं दिल्ली नगर पालिका अथवा दिल्ली महानगर परिषद् अथवा दिल्ली नगर निगम, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य नहीं रहता तो वह दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नहीं रहेगा।”

(ख) नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाए, अर्थात् :—

“8. हवाई यात्रा :—अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष-एवं-महाप्रबन्धक, जैसी भी स्थिति हो, अपने स्वविवेकानुसार और अन्य सदस्य अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष-एवं-महाप्रबन्धक जैसी भी स्थिति हो, की पूर्वनिर्णयित से, अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वायुयान द्वारा यात्रा कर सकते हैं।”

[सं. टी. जी. डी./ (23)/79]

बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 1979

S.O. 573(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (2) of section 44 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Transport Corporation (Members) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973,—

(a) for rules 3 and 4, the following rules shall be substituted, namely:—

“3. Composition of Corporation.—The Corporation shall consist of the following members appointed by the Central Government, namely:—

(a) the Chairman or the Chairman-cum-General Manager;

(b) the General Manager of the Corporation, if the office of the General Manager is not combined with the office of the Chairman,

(c) five officials; and

(d) five persons of whom—

(i) one shall be a representative of the New Delhi Municipal Committee, nominated by that Committee from among the members of that Committee;

(ii) one shall be a representative of the Metropolitan Council of Delhi, elected from among themselves by the members of that Council;

(iii) one shall be a representative of the Municipal Corporation of Delhi, elected from among themselves by the members of that Corporation;

(iv) two shall be persons nominated by the Central Government.

4. Term of office.—The term of office of a member, other than the General Manager or the Chairman or the Chairman-cum-General Manager, as the case may be, shall be for a period of three years from the date of his appointment and he shall be eligible for re-appointment.

Provided that a person appointed under sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (d) of rule 3 shall cease to be a member of the corporation if he ceases to be a member of the New Delhi Municipal Committee or the Metropolitan Council of Delhi or the Municipal Corporation of Delhi, as the case may be.”

(b) for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

“8. Travel by Air.—The Chairman or the Chairman-cum-General Manager, as the case may be, at his discretion and other members with the previous permission of the Chairman or the Chairman-cum-General Manager, as the case may be, may travel by air in the discharge of their duties under the Act.”

[TG/D/(23)/79]

B. B. MAHAJAN, Joint Secretary.